

गणित

अध्याय-1: संख्या पद्धति



संख्या पद्धतियाँ

संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिये निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है।

संख्याओं के प्रकार

संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:

- प्राकृतिक संख्या
- सम संख्या
- विषम संख्या
- पूर्ण संख्या
- पूर्णांक संख्या
- भाज्य संख्या
- अभाज्य संख्या
- सह अभाज्य संख्या
- परिमेय संख्या
- अपरिमेय संख्या
- वास्तविक संख्या
- अवास्तविक संख्या




Fukey Education

1. प्राकृतिक संख्या

गणित में 1,2,3,... इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ (अंग्रेज़ी: natural numbers) कहते हैं। ये संख्याएँ वस्तुओं को गिनने ("मेज पर 5 किताबें हैं") अथवा क्रम में रखने ("मैंने स्पर्धा में 6वाँ स्थान पाया") के लिए प्रयुक्त होती हैं।

प्राकृतिक संख्याओं के जो गुणस्वभाव भाज्यता से संबंधित हैं।

उदाहरण: (ऊपर से नीचे की ओर) एक सेब, दो सेब, तीन सेब, ..



2. सम संख्या

कोई भी संख्या जो 2 से विभक्त होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, -2 आदि। इसलिए 2 एक सम संख्या है।

उदाहरण: संख्या दो से भाग देकर

सम संख्याओं पहचानने का दूसरा तरीका है कि आप दी हुई संख्या को 2 से भाग दे। और यदि शेषफल शून्य आता है या पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो सम संख्या है। और इस तरीका को भी आसान ही कहेंगे क्योंकि 5-6 अंको की संख्या को 2 से भाग देना कोई भारी काम नहीं है।

जैसे-

6668 - शेषफल 0 प्राप्त होता है इसलिए यह एक सम संख्या है।

2245 - शेषफल 1 प्राप्त होता है इसलिए यह सम संख्या नहीं है।

3. विषम संख्या

ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएँ कहते हैं।

जैसे :- 1, 3, 5, 7, 9, 11,

जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो सभी विषम संख्याएँ कहलाती हैं।

विषम संख्या को अंग्रेजी में Odd Number कहते हैं।


4. पूर्ण संख्या

0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएँ (Natural Numbers) पूर्ण संख्या होती हैं।

उदाहरण :- 0,1,2,3,4,5,6,7..... अनंत

संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या

0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी (unit distance) कहलाती है। इसी रेखा पर 1 के दाईं ओर 1 मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इसी विधि का प्रयोग करते हुए, संख्या रेखा पर एक-एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3, 4, 5, ... से नामांकित करते रहिए। अब आप जब दाईं ओर आगे बढ़ेंगे तो आप किसी भी पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं।



5. पूर्णांक संख्या

सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह (संग्रह) को , पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाये तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं।

Examples:- 4,5,0,-2,-1,55,-60 सभी पूर्णांक संख्याएँ हैं।

6. भाज्य संख्या

ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं।

Ex : 4, 6, 8, 9, 10, 12,∞

भाज्य संख्या को अंग्रेजी में “Composite Number” कहाँ जाता है।

भाज्य संख्याएँ कैसे निकालें

जिस संख्या का गुणनखण्ड दो या दो से अधिक हो वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ भाज्य संख्या कहलाती हैं।

आसान भाषा में समझा जाए तो – तीन या तीन से अधिक गुणनखण्ड वाले धनात्मक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं।

जैसे:-

- $18 \div 1 = 18$
- $18 \div 2 = 9$
- $18 \div 3 = 6$
- $18 \div 9 = 2$
- $18 \div 18 = 1$

7. अभाज्य संख्या

अभाज्य संख्याएँ: वे संख्याएँ जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें 'अभाज्य संख्याएँ' कहते हैं।

जैसे- 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि 'अभाज्य संख्याएँ' हैं। '1' एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है।

8. सह अभाज्य संख्या

ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखण्डों में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखण्ड न हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं।

दूसरे शब्दों में – कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका (HCF) 1 हो सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

HCF का मतलब सबसे बड़ा सार्व गुणनखण्ड होता है। जैसे :- 9, 25 में सबसे बड़ा सार्व गुणनखण्ड केवल 1 ही है। अतः (9, 25) एक सह अभाज्य संख्या है।

उदाहरण :- (2, 3), (3, 4), (5, 6), (14, 15),.....दी गई संख्याओं में से कौनसा गुणनखण्ड सह-अभाज्य संख्याएँ हैं?

हल:- (2, 3), (3, 4), (5, 6), (14, 15),

सह अभाज्य संख्याओं को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं -

जैसे:-

- (2, 3)

$$2 \times 1 = 2$$

$$3 \times 1 = 3$$

- (3, 4)

$$3 \times 1 = 3$$

$$4 \times 1 = 4$$

- (5, 6)

$$5 \times 1 = 5$$

$$6 \times 1 = 6$$

- (14, 15)

$$14 \times 1 = 14$$

$$15 \times 1 = 15$$

गुणनखण्ड में आप देख सकते हैं कि सभी में उभयनिष्ठ 1 प्राप्त होता है अर्थात यह सह अभाज्य संख्याएँ हैं।

9. परिमेय संख्या


वैसी वास्तविक संख्याएँ जो p/q के लघुतम स्वरूप में व्यवस्थित हो, जहा p और q पूर्णांक होने के साथ साथ q शून्य के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है।

अर्थात, हर और अंश के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती है. जहाँ केवल हर शून्य के बराबर न हो। स्पष्ट शब्दों में, एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक से भाग देने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है, उसे परिमेय संख्या कहते है।

दुसरें शब्दों में, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा $q \neq 0$ हो, उसे परिमेय संख्या कहते है।

जैसे; $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$

आदि।



उदाहरण 1 और 2 के बीच की पाँच परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल: r और s के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए r और s को जोड़ते हैं और उसे दो से भाग दे देते हैं,

अर्थात् $\frac{r+s}{2}$, r और s के बीच स्थित होती है। अतः $\frac{3}{2}$, 1 और 2 के बीच की एक संख्या है। इसी प्रक्रिया में हम 1 और 2 के बीच चार और परिमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। ये चार

संख्याएँ हैं: $\frac{5}{4}, \frac{11}{8}, \frac{13}{8}$ और।

परिमेय संख्या के गुणधर्म | Property of Rational Numbers in Hindi

चूंकि Parimey Sankhya वास्तविक संख्या का एक भाग है, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली के सभी गुणों का पालन करता है। इसके अलावा भी कुछ गुण हैं जो निचे अंकित हैं।

- परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर पूर्णांक की तरह ही निरूपित किया जा सकता है।
- यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़, घटाव, गुना या भाग किया जाए, तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
- परिमेय संख्या के अंश और हर में बराबर संख्या से गुना या भाग किया जाए, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा।
- परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल की संक्रियाएँ क्रमविनिमेय साहचर्य होती है।

10. अपरिमेय संख्या

ऐसी संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।

जैसे- $\pi, \phi, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{13}$ आदि।

धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में अंतर

परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ p/q दोनों पूर्णांक होते हैं। (q या हर) हमेशा शून्य के बराबर नहीं होता है। वहाँ परिमेय संख्याएँ धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं।

संख्याएँ धनात्मक परिमेय होगी यदि और केवल यदि $(+p/+q)$ हो ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ होगी यदि और केवल यदि $-(p/q)$ हो।

धनात्मक परिमेय संख्याएँ	ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ
परिमेय संख्या जिनमें अंश तथा हर दोनों धनात्मक हों, धनात्मक परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।	परिमेय संख्या जिनमें अंश या हर कोई एक ऋणात्मक हो ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ कहते हैं।

धनात्मक परिमेय संख्याएँ	ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ
अंश और हर दोनों में बराबर चिन्ह हो। अर्थात (p/q) या (+p/+q) हो वह धनात्मक परिमेय संख्याएँ होगी।	यदि अंश और हर दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हो, अर्थात $-(p/q) = (-p)/q = p/(-q)$, हो तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।
धनात्मक परिमेय संख्याएँ शून्य से बड़ी होती हैं।	ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ शून्य से छोटी होती हैं।
धनात्मक परिमेय संख्याएँ के उदाहरण :- $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, 2.1$	धनात्मक परिमेय संख्याएँ के उदाहरण :- $\frac{2}{-3}, \frac{5}{-7}, -\frac{6}{7}, -2.1$

समतुल्य परिमेय संख्याएँ

ऐसी परिमेय संख्याएँ जो परस्पर एक-दूसरे के बराबर हों उन संख्याओं को एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएँ कहाँ जाता है।

दी हुई परिमेय संख्याएँ के समतुल्य परिमेय संख्याएँ निकालना

एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य या तुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है।

उदाहरण

$\frac{3}{4}$ के अंश और हर में 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या $\frac{3}{4}$ के समतुल्य परिमेय संख्याएँ होगी।

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

अतः $\frac{3}{4}$ समतुल्य $\frac{6}{8}$ परिमेय संख्याएँ हैं।

उसी प्रकार $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3}$

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$$

अतः $\frac{3}{4}$ समतुल्य $\frac{9}{12}$ परिमेय संख्याएँ हैं।

उसी प्रकार $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{3 \times 4}$

$$\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$$

अतः $\frac{3}{4}$ समतुल्य $\frac{12}{16}$ परिमेय संख्याएँ हैं।

अतः $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{12}$ और $\frac{12}{16}$ समतुल्य परिमेय संख्याएँ हैं क्योंकि ये आपस में परस्पर बराबर हैं।

परिमेय संख्याओं से संबंधित उदाहरण

उदाहरण (1) $\frac{1}{2}$

तथा $\frac{1}{3}$ की तुलना कीजिए?

हल:- प्रश्नानुसार,

$$\frac{1}{2} \text{ तथा } \frac{1}{3}$$

इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्तक होता है $3 \times 2 = 6$

अतः $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}$

तथा, $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$

अब चूँकि $\frac{3}{6}$ तथा $\frac{2}{6}$ के अंश में 6 बड़ा है अतः

$$\frac{3}{6} > \frac{2}{6}$$

या, $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$

अर्थात् $\frac{1}{2}$ बड़ा है $\frac{1}{3}$ से।

उत्तर:- $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$

उदाहरण (2) परिमेय संख्याएँ $\frac{3}{5}$ तथा $\frac{6}{7}$ की तुलना कीजिए?

हल:- प्रश्नानुसार,

दी गयी परिमेय संख्याएँ $\frac{3}{5}$ तथा $\frac{6}{7}$

बज्र गुणन करने पर

बज्र गुणन

3×7 तथा 6×5

21 तथा 30

$21 < 30$

अतः $\frac{3}{5} < \frac{6}{7}$

अर्थात्, $\frac{3}{5}$ छोटा है $\frac{6}{7}$ से

उत्तर:- $\frac{3}{5} < \frac{6}{7}$

11. वास्तविक संख्या

परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तथा वास्तविक संख्याओं को R से सूचित किया जाता है। पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या (Real number) कहते हैं।

जैसे- 2, $\sqrt{4}$, 9, $\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$, -5, pi ($\frac{22}{7}$), -100 आदि सभी वास्तविक संख्याएँ हैं।

12. अवास्तविक संख्या

अवास्तविक संख्या यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो ,तो वैसी संख्याये अवास्तविक

कहलाती है । अवास्तविक संख्याये $\sqrt{-1}, \sqrt{-4}, \sqrt{-9}$ - $\frac{3}{4}$

के रूप में लिखी जाती है । जो संख्याये वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है ,जैसे $3+\sqrt{-4}$, समिश्र संख्याये कहलाती है ।

जैसे:- $\sqrt{-3}, \sqrt{-5}, \sqrt{-\frac{3}{4}}, \frac{\sqrt{7}}{-13}, \frac{\sqrt{11}}{-17}$

अवास्तविक संख्याओं को $\sqrt{-3}, \sqrt{-5}, \sqrt{-\frac{3}{4}}, \frac{\sqrt{7}}{-13}, \frac{\sqrt{11}}{-17}$ के रूप में लिखा जाता है।

मुख्य अवधारणाएँ और परिणाम

1. परिमेय संख्याएँ
2. अपरिमेय संख्याएँ
3. संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएँ निर्धारित करना
4. वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार
5. संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण
6. वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ
7. हर का परिमेयीकरण

वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम

1. एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$ है।
2. एक संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके (जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$ है) अपरिमेय संख्या कहलाती है।
3. सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहा जाता है।
4. एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सांत या असांत आवर्ती होता है तथा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार असांत अनावर्ती होता है।

5. यदि r एक परिमेय संख्या है और s एक अपरिमेय संख्या है तो $r + s$ और $r - s$ अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। साथ ही, यदि r एक शून्यत्तर परिमेय संख्या हो तो rs और r/s अपरिमेय संख्याएँ होती हैं।

धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के लिए नियम

1. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$
2. $\sqrt{a/b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$
3. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$
4. $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$
5. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$

(vi) यदि m और n परिमेय संख्याएँ तथा a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो

- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^m / a^n = a^{m-n}$
- $a^m b^m = (ab)^m$

Fukey Education

NCERT SOLUTIONS

प्रश्नावली 1.1 (पृष्ठ संख्या 6)

प्रश्न 1. क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप $\frac{p}{q}$ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है?

उत्तर- हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे $\frac{p}{q}$ के रूप में लिख सकते हैं।

0 को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त करने $\frac{0}{1}$ पर प्राप्त होता है जहाँ $p=0$ और $q=1$ और $q \neq 0$ है।

प्रश्न 2. 3 और 4 के बीच में छः परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर- हमें छः संख्याएँ प्राप्त करना है।

इसलिए, $6 + 1 = 7$

अब, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर

प्रश्न 3. $\frac{3}{5}$ और $\frac{4}{5}$ के बीच में छः परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर-

$\frac{3}{5}$ और $\frac{4}{5}$ में हर समान है, और पाँच संख्याएँ प्राप्त करना है।

इसलिए, $5 + 1 = 6$

$\Rightarrow \frac{3}{5}$ और $\frac{4}{5}$

या $\frac{3}{5} \times \frac{6}{6}$ और $\frac{4}{5} \times \frac{6}{6}$ (अंश और हर में 6 से गुणा करने पर)

या $\frac{18}{30}$ और $\frac{24}{30}$

अतः $\frac{18}{30}$ और $\frac{24}{30}$ के बीच में पाँच परिमेय संख्या हैं-

$\Rightarrow \frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30}$

प्रश्न 4. नीचे दिया कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।

- (i) प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
- (ii) प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
- (iii) प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।

उत्तर-

(i) सत्य

कारण- क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएँ शामिल हैं।

(ii) असत्य

कारण- क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता है।

(iii) असत्य

कारण- परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार के संख्याएँ आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्नावली 1.2 (पृष्ठ संख्या 9-10)

प्रश्न 1. नीचे दिया कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।

- (i) प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
- (ii) संख्या रेखा का प्रत्येक बिन्दु \sqrt{m} के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है।
- (iii) प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।

उत्तर-

(i) सत्य

कारण- क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएँ भी होती है।

(ii) असत्य

कारण- संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएँ होती है, परन्तु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है।

(iii) असत्य

कारण. क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय सा संख्याएँ एवं अपरिमेय संख्याएँ दोनों होती हैं। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं।

प्रश्न 2. क्या सभी धनात्मक पूर्णाकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।

उत्तर-

सभी धनात्मक पूर्णाकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, हम धनात्मक पूर्णाक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9 का उदाहरण लेते हैं।

- $\sqrt{1} = 1$ (परिमेय)
- $\sqrt{2} = \sqrt{2}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{4} = 2$ (परिमेय)
- $\sqrt{5} = \sqrt{5}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{6} = \sqrt{6}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{7} = \sqrt{7}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{8} = \sqrt{8}$ (अपरिमेय)
- $\sqrt{9} = 3$ (परिमेय)




Fukey Education

उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 की वर्गमूल क्रमशः 1, 2, और 3 है जो परिमेय संख्या है।

प्रश्न 3. दिखाइए कि संख्या रेखा पर $\sqrt{5}$ को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।

उत्तर-



$$OE = OE' = \sqrt{5}$$

OA = 1 इकाई, AB = 1 इकाई,
समकोण $\triangle AOB$ में, पाइथोगोरस प्रमेय से,

$$OB^2 = OA^2 + AB^2$$

$$OB^2 = 1^2 + 1^2$$

$$OB^2 = 2$$

$$OB = \sqrt{2}$$

अब समकोण $\triangle BOC$ में, पाइथोगोरस प्रमेय से,

$$OC^2 = OB^2 + BC^2$$

$$OC^2 = (\sqrt{2})^2 + 1^2$$

$$OC^2 = 2 + 1 = 3$$

$$OC = \sqrt{3}$$

अब समकोण $\triangle COD$ में, पाइथोगोरस प्रमेय से,

$$OD^2 = OC^2 + DC^2$$

$$OD^2 = (\sqrt{3})^2 + 1^2$$

$$OD^2 = 3 + 1 = 4$$

$$OD = \sqrt{4} = 2$$

अब समकोण $\triangle DOE$ में, पाइथोगोरस प्रमेय से,

$$OE^2 = OD^2 + DE^2$$

$$OE^2 = (2)^2 + 1^2$$

$$OE^2 = 4 + 1 = 5$$

$$OE = \sqrt{5}$$

अब O को केंद्र और OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को OE' पर प्रतिच्छेद करता है जहाँ $OE = OE' = \sqrt{5}$ है।

प्रश्नावली 1.3 (पृष्ठ संख्या 16-17)

प्रश्न 1. निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है-

(i) $\frac{36}{100}$

(ii) $\frac{1}{11}$

(iii) $4\frac{1}{8}$

(iv) $\frac{3}{13}$

(v) $\frac{2}{11}$

(vi) $\frac{329}{400}$

उत्तर-

- (i) $\frac{36}{100} = 0.36$ सांत दशमलव प्रसार है।
- (ii) $\frac{1}{11} = 0.\overline{09}$ असांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है।
- (iii) $4\frac{1}{8} = \frac{33}{8} = 4.125$ शांत दशमलव प्रसार है।
- (iv) $\frac{3}{13} = 0.\overline{230769}$ असांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है।
- (v) $\frac{2}{11} = 0.\overline{18}$ असांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है।
- (vi) $\frac{329}{400} = 0.8225$ सांत दशमलव प्रसार है।

प्रश्न 2. आप जानते हैं की $\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$ हैं। वास्तव में, लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते है कि $\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$ के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ, तो कैसे?

उत्तर- $\frac{2}{7} = 2 \times \frac{1}{7} = 2 \times 0.\overline{142857} = 0.\overline{285714}$

$\frac{3}{7} = 3 \times \frac{1}{7} = 3 \times 0.\overline{142857} = 0.\overline{0428571}$

$\frac{4}{7} = 4 \times \frac{1}{7} = 4 \times 0.\overline{142857} = 0.\overline{571428}$

$\frac{5}{7} = 5 \times \frac{1}{7} = 5 \times 0.\overline{142857} = 0.\overline{714285}$

$\frac{6}{7} = 6 \times \frac{1}{7} = 6 \times 0.\overline{142857} = 0.\overline{857142}$

प्रश्न 3. निम्नलिखित को $\frac{p}{q}$ रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$ है-

- (i) $0.\overline{6}$
- (ii) $0.\overline{47}$
- (iii) $0.\overline{001}$

उत्तर-

(i)

माना $x = 0.\overline{6} \dots$ (i)

दोनों तरफ 10 से गुना करने पर

$10x = 6.\overline{6} \dots$ (ii)

अब समीकरण (ii) में से समी. (i) घटाने पर

$10x = 6.\overline{6} \dots$ (ii)

$- x = 0.\overline{6} \dots$ (i)

$9x = 6.0$

$\therefore x = \frac{6}{9}$

अतः $0.\overline{6} = \frac{6}{9}$

नोट- जब 1 संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, जब 2 संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुना होगा और जब 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुना करना होता है।

जैसे-

$0.\overline{6}$ हो तो 10 से

$0.\overline{61}$ हो तो 100 से और

$0.\overline{001}$ हो तो 1000 से

(ii) माना $x = 0.47 \dots$ (i)

समीकरण (i) में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर-

$10x = 4.7 \dots$ (ii)

अब समीकरण (ii) में से समी. (i) घटाने पर

$100x = 4.7 \dots$ (iii)

समीकरण (iii) में से समी. (ii) घटाने पर

$$100x - 10x = 47.\bar{7} - 4.\bar{7}$$

$$90x = 43$$

$$x = \frac{43}{90}$$

इसलिए, $0.4\bar{7} = \frac{43}{90}$

नोट- जब 1 संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, जब 2 संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुना होगा और जब 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुना करना होता है।

(iii)

माना $x = 0.\overline{001} \dots$ (i)

समीकरण (i) में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर-

$$1000x = 1.\overline{001} \dots$$
 (ii)

अब समीकरण (ii) में से समी. (i) घटाने पर

$$1000x - x = 1.\overline{001} - 0.\overline{001}$$

$$999x = 1$$

$$x = \frac{1}{999}$$

इसलिए, $0.\overline{001} = \frac{1}{999}$

प्रश्न 4. $0.99999\dots$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से अश्चर्यचकित है?

उत्तर- माना $x = 0.99999 \dots$ (i)

समीकरण (i) में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर-

$$10x = 9.99999 \dots$$
 (2)

अब समीकरण (ii) में से समी. (i) घटाने पर

$$10x - x = 9.99999 \dots - 0.99999$$

$$9x = 9$$

$$x = \frac{9}{9} = 1$$

इसलिए, $0.99999 = 1$

प्रश्न 5. $\frac{1}{17}$ के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।

उत्तर- $\frac{1}{17} = 0.0588235294117647$

पुनरावृत्ति खंड में अंको की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है।

0.0588235294117647	
17) 1.14	
85	
150	
136	
140	
136	
40	
34	
60	
51	
90	
85	
50	
34	
160	
153	
70	
68	
20	
17	
130	
119	
110	
102	
80	
68	
120	
119	
1	



Fukey Education

प्रश्न 6. $\frac{p}{q}$ ($q \neq 0$) के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सात दशमलव निरूपण (प्रसार) है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन-सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए?

उत्तर-

$\frac{9}{2}, \frac{7}{4}, \frac{12}{5}, \frac{17}{10}, \frac{2}{5}$ इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण है जहाँ p

$$\frac{9}{2} = 4.5$$

$$\frac{7}{4} = 1.75$$

$$\frac{12}{5} = 2.4$$

$$\frac{17}{10} = 1.7$$

$$\frac{2}{5} = 0.4$$

और q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अर्थात् ये सह-अभाज्य संख्याएँ हैं और इनका सात दशमलव प्रसार है। सात दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2^n या 5^n या $2^m \times 5^n$ के रूप का होना चाहिए।

प्रश्न 7. ऐसी तीन संख्याएँ लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों।

उत्तर- सभी अपरिमेय संख्याएँ अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है।

इसलिए तीन उदाहरण हैं- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ आदि।

प्रश्न 8. परिमेय संख्याओं $\frac{5}{7}$ और $\frac{9}{11}$ के बीच की तीन अलग-अलग अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर- $\frac{5}{7} = 0.714285$

$$\frac{9}{11} = 0.81818181$$

अर्थात् 0.714285... और 0.81818181... के बीच तीन अपरिमेय संख्याएँ हैं।

0.72010010001...

0.751121231234...

0.80145672434890...

प्रश्न 9. बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या अपरिमेय।

- (i) $\sqrt{23}$
- (ii) $\sqrt{225} = 15$
- (iii) 0.3796
- (iv) 7.478778.....
- (v) 1.101001000100001.....

उत्तर-

- (i) अपरिमेय संख्या हैं।
- (ii) परिमेय संख्या है।
- (iii) परिमेय संख्या है।
- (iv) अपरिमेय संख्या हैं।
- (v) अपरिमेय संख्या हैं।




प्रश्नावली 1.4 (पृष्ठ संख्या 21)

प्रश्न 1. उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिये।

उत्तर-


संख्या रेखा



प्रश्न 2. 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर $4.\overline{26}$ को देखिए।

उत्तर-

संख्या रेखा



प्रश्नावली 1.5 (पृष्ठ संख्या 28)

प्रश्न 1. बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन-कौन परिमेय हैं और कौन-कौन अपरिमेय है-

- (i) $2 - \sqrt{5}$
- (ii) $(3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23}$
- (iii) $\frac{2\sqrt{7}}{7\sqrt{7}}$
- (iv) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (v) 2π

उत्तर-

(i) $2 - \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।

(ii) $(3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23}$

$$\Rightarrow (3 + \sqrt{23}) - \sqrt{23} = 3$$

अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि हल करने पर हमें 3 एक पूर्णांक प्राप्त होता है।

(iii) $\frac{2\sqrt{7}}{7\sqrt{7}} = \frac{2}{7}$

अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक है।

(iv) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।

(v) 2π यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए-

- (i) $(3 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{2})$
- (ii) $(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})$
- (iii) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$
- (iv) $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$

उत्तर-

- (i) **Note-** ध्यान दे कि यहाँ $(3 + \sqrt{3})$ और $(2 + \sqrt{2})$ के बीच गुणा कि क्रिया करना है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का हल दो प्रकार से किया जा सकता है।
- i. गुणा की वैकल्पिक विधि (alternate method) जिसे द्वैतिज विधि भी कहते हैं।
 - ii. सर्वसमिका अर्थात सूत्र (formula) के प्रयोग से।

ऐसे प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सर्वसमिका का प्रयोग करे-

- a. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- b. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- c. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- d. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

वैकल्पिक विधि-

$$\begin{aligned}
 &(3 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{2}) \\
 &= 3(2 + \sqrt{2}) + \sqrt{3}(2 + \sqrt{2}) \\
 &= 3 \times 2 + 3 \times \sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\
 &= 6 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

(ii)

सर्वसमिका द्वारा-

$$\begin{aligned}
 &(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3}) \\
 &= 3^2 - (\sqrt{3})^2 \quad [\because (a + b)(a - b) = a^2 - b^2] \\
 &= 9 - 3 \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

(iii) **Note-** इस प्रश्न को दो प्रकार से हल किया जा सकता है।

- i. गुणा की वैकल्पिक विधि (alternate method) जिसे द्वैतिज विधि भी कहते हैं।
- ii. सर्वसमिका अर्थात सूत्र (formula) के प्रयोग से।

ऐसे प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सर्वसमिका का प्रयोग करें-

- a. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- b. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- c. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- d. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

पहली विधि-

$$[\because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2] \text{ सर्वसमिका द्वारा}$$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = (\sqrt{5})^2 + 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2$$

$$= 5 + 2\sqrt{10} + 2$$

$$= 7 + 2\sqrt{10}$$

दूसरी विधि (वैकल्पिक विधि)-

$$(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = (\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$$

$$= \sqrt{5}(\sqrt{5} + \sqrt{2}) + \sqrt{2}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$$

$$= \sqrt{25} + \sqrt{10} + \sqrt{10} + \sqrt{4}$$

$$= 5 + \sqrt{10} + \sqrt{10} + 2$$

$$= 7 + 2\sqrt{10}$$

(iv)

$$\begin{aligned}
 & (\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) \\
 &= (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 [\because (a + b)(a - b) = a^2 - b^2] \\
 &= 5 - 2 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

प्रश्न 3. आपको याद होगा कि π को एक वृत्त की परिधि (मान लीजिए c) और उसके व्यास (मान लीजिए d) के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात् $\pi = \frac{c}{d}$ है। यह इस तथ्य का अन्तर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि π अपरिमेय है। इस अन्तर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे?


उत्तर- $\pi = \frac{c}{d}$ दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है।

जहाँ $\frac{c}{d} = \frac{22}{7}$ सर्फ π का अनुमानित मान होता है और जिसका दशमलब मान अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है।

प्रश्न 4. संख्या रेखा पर $\sqrt{9.3}$ को निरूपित कीजिए।

उत्तर-

1. एक 9.3cm का रेखाखंड AB खींचिए और से 1cm आगे बिंदु C तक बढ़ाइये।
2. इसप्रकार बने रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक खींचिए जो AC को बिंदु O पर काटती है।
3. AO या CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए।
4. बिंदु B से AC पर लंब खींचिए जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटती है। BD या BE अभीष्ट $\sqrt{9.3}$ का संख्या रेखा पर माप है।



$$BD = BE = \sqrt{9.3}$$

प्रश्न 5. निम्नलिखित के हरो का परिमेयकरण कीजिए-

- (i) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
- (ii) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$
- (iii) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$
- (iv) $\frac{1}{\sqrt{7}-2}$

उत्तर-

(i)

$\frac{1}{\sqrt{7}}$ Fukey Education

हरो का परिमेयकरण करने पर-

$$\frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{49}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

(ii)

$$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$$

हरो का परिमेयकरण करने पर-

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{(\sqrt{7}-\sqrt{6})(\sqrt{7}+\sqrt{6})}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{(\sqrt{7^2}-\sqrt{6^2})}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{7-6}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{1}$$

$$= \sqrt{7} + \sqrt{6}$$

(iii)

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$$

हरो का परिमेयकरण करने पर-

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5^2}-\sqrt{2^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$$

(iv)

$$\frac{1}{\sqrt{7}-2}$$

हरो का परिमेयकरण करने पर-

$$\frac{1}{\sqrt{7}-2} \times \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}+2}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+2}{(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}^2-2^2}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+2}{7-4}$$

$$= \frac{\sqrt{7}+2}{3}$$

प्रश्नावली 1.6 (पृष्ठ संख्या 31)

प्रश्न 1. ज्ञात कीजिए-

(i) $64^{\frac{1}{2}}$

(ii) $32^{\frac{1}{2}}$

(iii) $125^{\frac{1}{3}}$

उत्तर-

(i) $64^{\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow 64^{\frac{1}{2}} = (8 \times 8)^{\frac{1}{2}} = (8)^{2 \times \frac{1}{2}} = 8$$

(ii) $32^{\frac{1}{5}}$

$$\Rightarrow 32^{\frac{1}{5}} = (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)^{\frac{1}{5}}$$

$$= (2)^{5 \times \frac{1}{5}} = 2$$

(iii) $125^{\frac{1}{3}}$

$$\Rightarrow 125^{\frac{1}{3}} = (5 \times 5 \times 5)^{\frac{1}{3}}$$

$$= (5)^{3 \times \frac{1}{3}} = 5$$

प्रश्न 2. ज्ञात कीजिए-

(i) $9^{\frac{3}{2}}$

(ii) $32^{\frac{2}{5}}$

(iii) $16^{\frac{3}{4}}$

(iv) $125^{-\frac{1}{3}}$

उत्तर-

(i) $9^{\frac{3}{2}}$

$$\Rightarrow 9^{\frac{3}{2}} = (3 \times 3)^{\frac{3}{2}} = (3)^{2 \times \frac{3}{2}} = 3^3 = 27$$

(ii) $32^{\frac{2}{5}}$

$$\Rightarrow 32^{\frac{2}{5}} = (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)^{\frac{2}{5}}$$

$$= (2)^{5 \times \frac{2}{5}} = 2^2 = 4$$

(iii) $16^{\frac{3}{4}}$

$$\Rightarrow 16^{\frac{3}{4}} = (2 \times 2 \times 2 \times 2)^{\frac{3}{4}}$$

$$= (2)^{4 \times \frac{3}{4}} = 2^3 = 8$$

(iv) $125^{-\frac{1}{3}}$

$$\Rightarrow 125^{-\frac{1}{3}} = (5 \times 5 \times 5)^{-\frac{1}{3}}$$

$$= (5)^{3 \times -\frac{1}{3}}$$

Fukey Education

$$= \frac{1}{5}$$

प्रश्न 3. ज्ञात कीजिए-

(i) $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{5}}$

(ii) $\left(\frac{1^3}{3}\right)^7$

(iii) $\frac{11^{\frac{1}{2}}}{11^{\frac{1}{4}}}$

(iv) $7^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{2}}$

उत्तर-

(i) $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{5}}$

$$\Rightarrow 2^{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}}$$

$$= (2)^{\frac{2+1}{3+5}}$$

$$= (2)^{\frac{10+2}{15}}$$

$$= (2)^{\frac{12}{15}}$$

(ii) $\left(\frac{1^3}{3}\right)^7$

$$\Rightarrow \left(\frac{1^3}{3}\right)^7 = \frac{1^7}{3^3 \times 7} = \frac{1}{3^{21}}$$

(iii) $\frac{11^{\frac{1}{2}}}{11^{\frac{1}{4}}}$

$$\Rightarrow 11^{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}$$

$$\Rightarrow 11^{\frac{2-1}{4}}$$

$$\Rightarrow 11^{\frac{1}{4}}$$

(iv) $7^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow (7 \times 8)^{\frac{1}{2}} = 56^{\frac{1}{2}}$$